



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2011/पौष 21, 1932

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

**का.आ. 43(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 948(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (क) के बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा से छिन्दवाड़ा सेक्शन तक के भूखण्ड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 मई, 2010 को “नवभारत” और तारीख 24 मई, 2010 को “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) के बैतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा से छिन्दवाड़ा खंड तक अधिग्रहित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छिन्दवाड़ा	1.छिन्दवाड़ा	इमलीखेड़ा	68	निजी	परिवर्तित	0.065	दशरथ प्रसाद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण
				69	निजी	असिंचित	0.325	बच्चू भाई पुत्र भावजी भाई गुजराती
				70	निजी	असिंचित	0.065	सुरेश, नरेश पुत्रगण रामा, रामा पिता मनसा
				104	निजी	सिंचित	0.024	सुल्लूराम पुत्र देवाजी
				105	निजी	सिंचित	0.120	द्वारका प्रसाद पुत्र नोखेलाल कलार
				107	निजी	सिंचित	0.137	सुरेन्द्र, सुशील, संजीव पुत्रगण चूड़ामन कलार
				165/1	निजी	परिवर्तित	0.100	सुशील कुमार पुत्र कलीराम कलार
				165/2	निजी	सिंचित	0.060	अमिनेष कुमार, अजय कुमार पुत्र शांताराम कलार
				168	निजी	सिंचित	0.385	मुल्लू पुत्र देवचन्द कलार
				170	निजी	सिंचित	0.202	मुल्लू पुत्र देवचन्द कलार
				171/1	निजी	सिंचित	0.110	सहोद्रा विधवा कलीराम कलार
				171/2	निजी	असिंचित	0.020	सुशीला पति भैयालाल ठाकरे
				216/2	निजी	सिंचित	0.080	मुन्नीबाई पति द्वारका प्रसाद कलार
				216/3	निजी	सिंचित	0.100	खेमाबाई पति रामप्रसाद कलार
				36	निजी	सिंचित	0.081	सुरेन्द्र, सुशील, संजीव पुत्रगण चूड़ामन कलार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				37	निजी	सिंचित	0.330	कन्हैयालाल, सन्तोषलाल पुत्रगण सुल्लूराम, तुलसिया विधवा सुल्लूराम, बतसिया, खिमिया, सालकराम, बोमल, रूपचन्द पुत्रगण टेकचन्द कलार
				38	निजी	सिंचित	0.010	रामा पुत्र मनसा डीमर
				39	निजी	सिंचित	0.233	रामा पुत्र मनसा डीमर
				40	निजी	सिंचित	0.070	कन्हैयालाल, सन्तोषलाल पुत्रगण सुल्लूराम, तुलसिया विधवा सुल्लूराम, बतसिया, खिमिया, सालकराम, बोमल, रूपचन्द पुत्रगण टेकचन्द कलार
				41	निजी	असिंचित	0.050	अरुण कुमार पुत्र धनपाल, मनी पति प्रद्युम्न, हेमन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल
				53	शासकीय	असिंचित	0.720	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				58	शासकीय	रास्ता	0.024	म0प्र0 शासन
				59	शासकीय	असिंचित	0.668	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				60	शासकीय	रास्ता	0.028	म0प्र0 शासन
				61	शासकीय	असिंचित	0.300	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				62	शासकीय	रास्ता	0.028	म0प्र0 शासन
				63/1	शासकीय	असिंचित	1.910	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				63/2	शासकीय	असिंचित	0.345	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र छिन्दवाड़ा
				64	शासकीय	असिंचित	0.405	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				65	शासकीय	असिंचित	1.510	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				95/1	शासकीय	चरनोई	0.720	म0प्र0 शासन
				96	शासकीय	चरनोई	0.129	म0प्र0 शासन
				97	शासकीय	रास्ता	0.304	म0प्र0 शासन
				98	शासकीय	असिंचित	0.190	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र छिन्दवाड़ा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				99	शासकीय	चरनोई	0.185	म०प्र० शासन
				100	शासकीय	असिंचित	0.020	दुग्धालय डेरी फार्म इमलीखेड़ा
				103	शासकीय	रास्ता	0.008	म०प्र० शासन
				164	शासकीय	रास्ता	0.012	म०प्र० शासन
				166	शासकीय	घास	0.024	म०प्र० शासन
				167	शासकीय	रास्ता	0.295	म०प्र० शासन
				169	शासकीय	रास्ता	0.210	म०प्र० शासन
				172	शासकीय	घास	0.121	म०प्र० शासन
				173	शासकीय	रास्ता	0.020	म०प्र० शासन
				268	शासकीय	पानी	0.200	म०प्र० शासन
		2.मोहखेड़ा	परासिया बैतुल	58	निजी	असिंचित	0.060	सनोती, मंगली पुत्रिया सोमजी, भादा, रमा पिता पूरनसा, पूर्वा, पंचा, झीटू, सुमन, उमन पिता भादू, झाड़ू पिता गरभसिंग गोड़
				90/5	निजी	असिंचित	0.940	चम्पा विधवा रतनसा, शिवजी, शिव पिता रतनसा गोड़ शासकीय पट्टेदार
				97	निजी	असिंचित	0.140	झाड़ू, जन्नू पिता चिन्दू
				योग			12.083	

[ फा. सं. भाराप्र्रा/पीआईयू/सीएचडब्ल्यू/एलए/2010 ]

एस. नरेंद्र, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2011

**S.O. 43(E).** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 948(E), dated the 26th April, 2010, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 69(A) on the stretch of land from Betul/Chhindwara District Border to Chhindwara Section of NH-69(A) in District Chhindwara, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Navbharat", dated the 22nd May, 2010 and in "Dainik Bhaskar", dated the 24th May, 2010; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Betul/Chhindwara District Border to Chhindwara Section of the National Highway No. 69(A) in District Chhindwara and in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	1. Chhindwara	Imlikhera	68	Private	Diverted	0.065	Dashrath prasad S/o Laxmi Prasad Bramhan
				69	Private	Non-Irrigated	0.325	Bachhu Bhai S/o Bhavji Bhai Gujrati
				70	Private	Non-Irrigated	0.065	Suresh, Naresh S/o Rama, Rama S/o Mansa
				104	Private	Irrigated	0.024	Sulluram S/o Devaji
				105	Private	Irrigated	0.120	Dwarka Prasad S/o Nokhelal Kalar
				107	Private	Irrigated	0.137	Surendra, Sushil, Sanjeev S/o Chudaman Kalar
				165/1	Private	Diverted	0.100	Sushil Kumar S/o Kaliram Kalar
				165/2	Private	Irrigated	0.060	Aminesh Kumar, Ajay Kumar S/o Shantaram Kalar
				168	Private	Irrigated	0.385	Mullu S/o Devchand Kalar
				170	Private	Irrigated	0.202	Mullu S/o Devchand Kalar
				171/1	Private	Irrigated	0.110	Sahodra Widow Kaliram Kalar
				171/2	Private	Non-Irrigated	0.020	Sushila W/o Bhaiyalal Thakre
				216/2	Private	Irrigated	0.080	Munnibai W/o Dwarka Prasad Kalar
				216/3	Private	Irrigated	0.100	Khemabai W/o Ramprasad Kalar
				36	Private	Irrigated	0.081	Surendra, Sushil, Sanjeev S/o Chudaman Kalar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				37	Private	Irrigated	0.330	Kanhaiyalal, Santoshlal S/o Sulluram, Tulasiya Widow Sulluram, Batasiya, Khimiya, Salakram, Bomal, Roppchand S/o Tekchand Kalar
				38	Private	Irrigated	0.010	Rama S/o Mansa Dhimar
				39	Private	Irrigated	0.233	Rama S/o Mansa Dhimar
				40	Private	Irrigated	0.070	Kanhaiyalal, Santoshlal S/o Sulluram, Tulasiya Widow Sulluram, Batasiya, Khimiya, Salakram, Bomal, Roppchand S/o Tekchand Kalar
				41	Private	Non- Irrigated	0.050	Arun Kumar S/o Dhanpal, Mani W/o Pradyumna, Hemendra Kumar S/o Ghisulal
				53	Govt.	Non- Irrigated	0.720	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				58	Govt.	Rasta	0.024	M.P. Govt.
				59	Govt.	Non- Irrigated	0.668	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				60	Govt.	Rasta	0.028	M.P. Govt.
				61	Govt.	Non- Irrigated	0.300	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				62	Govt.	Rasta	0.028	M.P. Govt.
				63/1	Govt.	Non- Irrigated	1.910	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				63/2	Govt.	Non- Irrigated	0.345	Mahaprabandhak, Jila Udyog Kendra, Chhindwara
				64	Govt.	Non- Irrigated	0.405	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				65	Govt.	Non- Irrigated	1.510	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				95/1	Govt.	Charnoi	0.720	M.P. Govt.
				96	Govt.	Charnoi	0.129	M.P. Govt.
				97	Govt.	Rasta	0.304	M.P. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				98	Govt.	Non-Irrigated	0.190	Mahaprabandhak, Jila Udyog Kendra, Chhindwara
				99	Govt.	Charnoi	0.185	M.P. Govt.
				100	Govt.	Non-Irrigated	0.020	Dugdhalaya Dairy Form, Imlikhera
				103	Govt.	Rasta	0.008	M.P. Govt.
				164	Govt.	Rasta	0.012	M.P. Govt.
				166	Govt.	Ghas	0.024	M.P. Govt.
				167	Govt.	Rasta	0.295	M.P. Govt.
				169	Govt.	Rasta	0.210	M.P. Govt.
				172	Govt.	Ghas	0.121	M.P. Govt.
				173	Govt.	Rasta	0.020	M.P. Govt.
				268	Govt.	Water	0.200	M.P. Govt.
		2. Mohkhed	Parasia Betul	58	Private	Non-Irrigated	0.060	Sanoti, Mangli D/o Somji, Bhada, Rama D/o Puransa, Purva, Pancha, Jheetu, Suman, Uman D/o Bhadu, Jhadu S/o Garabhsing Gond
				90/5	Private	Non-Irrigated	0.940	Champa Widwo Ratansa, Shivji, Shiv S/o Ratansa Gond Shaskiya Pattedar
				97	Private	Non-Irrigated	0.140	Jhadu, Jannu S/o Chintu
				<b>Total</b>			<b>12.083</b>	

[F. No. NHA/PIU/CHW/LA/2010]

S. NARENDRA, Director